

## गोवा विश्वविद्यालय

### शणै गोंयबाब भाषा और साहित्य महाशाला

#### हिंदी अध्ययन शाखा

कार्यक्रम: स्नातकोत्तर हिंदी

पाठ्यक्रम: HIN-628

पाठ्यक्रम का शीर्षक: अनुवाद अध्ययन

श्रेयांक: 04 (60)

शैक्षणिक वर्ष से लागू: 2022-23

पाठ्यक्रम के लिए पूर्वापेक्षित	अनुवाद के अध्ययन हेतु दो-तीन भाषाओं का ज्ञान अपेक्षित है।	घंटे
उद्देश्य	<ul style="list-style-type: none"><li>अनुवाद के स्वरूप और प्रक्रिया से अवगत कराना।</li><li>अनुवाद की इकाइयों एवं भेदों से परिचित कराना।</li><li>अनुवाद की समस्याओं तथा साधनों की जानकारी देना।</li><li>अनुवाद के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देना।</li></ul>	
पाठ्य विषय	<p>1. अनुवाद</p> <ul style="list-style-type: none"><li>परिभाषा, स्वरूप एवं क्षेत्र</li><li>सिद्धांत एवं प्रक्रिया</li></ul>	08
	<p>2. अनुवाद की इकाइयाँ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>शब्द</li><li>पदबंध</li><li>वाक्य एवं पाठ</li></ul>	08
	<p>3. अनुवाद के भेद</p> <ul style="list-style-type: none"><li>शब्दानुवाद</li><li>भावानुवाद</li><li>छायानुवाद</li><li>आशु अनुवाद</li></ul>	08

	<p><b>4. अनुवाद की समस्याएँ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● कार्यालयी अनुवाद</li> <li>● साहित्यिक अनुवाद (काव्य, कथा, नाटक एवं अन्य विधाएँ)</li> <li>● मीडियागत अनुवाद</li> <li>● मशीनी अनुवाद</li> </ul>	10
	<p><b>5. अनुवाद के साधन</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● शब्दकोश और उसके प्रकार</li> <li>● ई-शब्दकोश – हिंदी शब्दतंत्र, ई-महाशब्दकोश</li> <li>● पारिभाषिक शब्दावली</li> <li>● थिसॉरस (समांतर कोश)</li> <li>● इंटरनेट – गूगल ट्रॉन्जलेट</li> </ul>	10
	6. अनुवादक के गुण	04
	7. अनुवाद की प्रासंगिकता, महत्व एवं सीमाएँ	04
	<p><b>8. अनुवाद का व्यावहारिक पक्ष</b> अँग्रेजी से हिंदी, कोंकणी से हिंदी तथा मराठी से हिंदी</p>	08
अध्यापन विधि	व्याख्यान, प्रस्तुतीकरण, स्वाध्याय, कार्यशाला, कंप्यूटर-इंटरनेट का प्रयोग	
संदर्भ ग्रंथ सूची	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) कुमार, डॉ. सुरेश. अनुवाद सिद्धांत की रूपरेखा. वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 2011.</li> <li>2) चव्हाण, अर्जुन. अनुवाद : समस्याएँ एवं समाधान. अमन प्रकाशन, कानपुर, 2021.</li> <li>3) चव्हाण, अर्जुन. अनुवाद चिंतन. अमन प्रकाशन, कानपुर, 2021.</li> <li>4) टंडन, डॉ. पूरनचंद्र, सेठी, हरिशकुमार. अनुवाद के विविध आयाम. तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली, 2005.</li> <li>5) तिवारी, डॉ. भोलानाथ, बाला, किरण. भारतीय भाषाओं से हिंदी अनुवाद की समस्याएँ.</li> <li>6) तिवारी, डॉ. भोलानाथ. अनुवाद की व्यावहारिक समस्याएँ.</li> </ol>	

	<p>7) तिवारी, डॉ. भोलानाथ. अनुवाद विज्ञान. किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, 2018.</p> <p>8) नौटियाल, डॉ. जयंतीप्रसाद. अनुवाद सिद्धांत एवं व्यवहार.</p> <p>9) श्रीवास्तव, डॉ. गरिमा. आशु अनुवाद. संजय प्रकाशन, दिल्ली, 2003.</p> <p>10) श्रीवास्तव, डॉ. रवींद्रनाथ, गोस्वामी, डॉ. कृष्णकुमार. अनुवाद सिद्धांत और समस्या. आलेख प्रकाशन, दिल्ली, 1985.</p>	
अधिगम परिणाम	<ul style="list-style-type: none"> <li>● अनुवाद के स्वरूप और प्रक्रिया से अवगत होंगे।</li> <li>● अनुवाद की इकाइयों एवं भेदों से परिचित होंगे।</li> <li>● अनुवाद के साधनों की जानकारी प्राप्त होगी।</li> <li>● अनुवाद के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलेगी।</li> </ul>	